



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 80-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 15, 2019 (VAISAKHA 25, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 15 मई, 2019

संख्या 61/जी०एस०टी०-2- हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31 मार्च, 2019 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 45/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2019, में, मूल हिन्दी पाठ में, -

- (i) पृष्ठ 1331 में, खाना (5) में, -
 - (क) पंक्ति 29 में, "कर" के स्थान पर, "राज्य कर" पढ़ा जाए ; तथा
 - (ख) पंक्ति 32 में, "अठारह" के स्थान पर, "नौ" पढ़ा जाए ;
- (ii) पृष्ठ 1350 में, पंक्ति 21 में, "18%" के स्थान पर, "18% (9+9)" पढ़ा जाए।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Corrigendum

The 15th May, 2019

No. 61/GST-2.— In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 45/GST-2, dated the 31st March, 2019 published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary), dated the 31st March, 2019,-

- (i) at page 1354,-
 - (a) in line 8, for “tax”, read “State tax”; and
 - (b) in line 11, for “eighteen”, read “nine”;
- (ii) at page 1370, in line 19, for “@ 18 per cent”, read “@ 18 (9+9) per cent”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.